



## Central Organisation For Railway Electrification

1, Nawab Yusuf Road, Civil Lines, Allahabad 211001

[www.core.indianrailways.gov.in](http://www.core.indianrailways.gov.in)

पत्रांक-कोर/पीआर/010/भाग-7 प्रेष विज्ञप्ति

दिनांक- 14.09.2018

### हिंदी दिवस/राजभाषा सप्ताह समारोह सम्पन्न

केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन में दिनांक 14.09.2018 को महाप्रबंधक, श्री रतन लाल की अध्यक्षता में माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इसके साथ ही राजभाषा सप्ताह समारोह का शुभारम्भ हो गया। इस अवसर पर मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं प्रमुख मुख्य सिगनल एवं दूर संचार इंजीनियर, श्री वी.के.वर्मा ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि 14 सितम्बर 1949 वह ऐतिहासिक दिन था जब हिंदी को संविधान में राजभाषा का गौरवमय स्थान प्राप्त हुआ था। इसी स्मृति में प्रतिवर्ष इस तिथि को हिंदी दिवस के राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे अपने दिन प्रतिदिन के सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करें तथा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भी प्रेरित करें जिससे ये आयोजन सार्थक हों।

महाप्रबंधक ने राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक हिंदी पत्रक " विद्युत प्रभा" का विमोचन भी किया। इस अवसर पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

महाप्रबंधक ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान होने, अधिनियम और नियम बनने के बाद केन्द्र सरकार के कार्यालयों में भी हिंदी का प्रयोग तेजी से बढ़ा है। हम सबको अपनी भाषा का प्रयोग करने में गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। यह अच्छी बात है कि हम अनेक भाषाएं सीखें, उनमें निपुणता हासिल करें लेकिन अपना दिनका प्रतिदिन-सरकारी कामकाज हिंदी में करें। राजभाषा संबंधी नियमों की अनदेखी न करें।

समारोह में मुख्यालय के विभागाध्यक्ष सर्वश्री आलोक गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, सत्य प्रकाश, प्रमुख मुख्य इंजीनियर, अरुण कुमार, वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक, राजीव त्रेहान, मुख्य सामग्री प्रबंधक तथा भारी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे। समारोह का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी श्रीमती सुनीला यादव ने किया।

जनसम्पर्क अधिकारी  
कोर/इलाहाबाद